



RSWM/SECTT/2023 August 17, 2023

BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street,

MUMBAI - 400 001.

Scrip Code: 500350

National Stock Exchange of India Limited

Listing Department,

Exchange Plaza, C-1, Block - G,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East),

MUMBAI - 400 051.

Scrip Code: RSWM

Sub: Submission of Newspapers Cutting of Notice of 62nd Annual General Meeting.

Dear Sir/ Madam,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding notice of 62nd Annual General Meeting published on 17th August, 2023 in "Business Standard" in English language and in "Business Remedies" & "Nafa Nuksan" in Hindi language.

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully, For **RSWM LIMITED**

SURENDER GUPTA VICE PRESIDENT – LEGAL & COMPANY SECRETARY FCS – 2615

rswm.investor@lnjbhilwara.com

Encl.: As above

(Formerly Rajasthan Spinning & Weaving Mills Limited)

Corporate Office :

Bhilwara Towers, A-12, Sector-1 Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India Tel: +91-120-4390300 (EPABX) Fax: +91-120-4277841

Fax: +91-120-4277841 Website: www.rswm.in GSTIN: 09AAACR9700M1Z1 Regd. Office:

Kharigram, P. B. No. 28, Post Office Gulabpura - 311 021

Distt. Bhilwara, (Rajasthan), India

Tel.: +91-1483-223144 to 223150, 223478

Fax: +91-1483-223361, 223479 Website: www.lnjbhilwara.com GSTIN: 08AAACR9700M1Z3

Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216

Germany, Spain in race for ₹40K crore Indian sub deal

16 August

wo European defense manufacturing giants are seeking to win a ₹40,000 crore (\$4.8 billion) order to build submarines in India as the Centre looks to strengthen its navy to counter China's expanding naval presence in the Indo-Pacific region.

Government officials are currently evaluating competing bids to build six of the vessels in India, senior officials aware of the developments said, asking not to be named because discussions are private. One bid is from Germany's Thyssenkrupp AG along with Mumbai-based Mazagon Dock Shipbuilders Limited, with the other was submitted by Spain's Navantia in partnership with private shipyard Larsen & Toubro, the people said.

The Navy will go for the best and largest transfer of technology that is being offered, the people said. When announcing the tender in July, the Ministry of Defense said it expected substantial technology transfer to Indian shipyards apart from providing the submarines with air independent propulsion — a technology that helps conventional vessels stay underwater for longer.

India is looking for a reliable alternative for military hardware as supplies from Russia, the country's biggest source of weapons, is mired in a protracted war in Ukraine and faces sanctions from the US and its allies. India, which is part of the so-called Quad grouping that includes Japan, US and Australia, is also projecting itself as a manufacturing hub and pushing for technology transfers to build complex defense platforms such as fighter aircraft and submarines. The Ministry of Defence, Larsen & Toubro, and MDL did not respond to requests for comment. Thyssenkrupp confirmed the bid and referred to a June 7 statement while Navantia didn't respond to emails.



The Navy will go for the best and largest transfer of technology that is being offered

Boeing starts building Apache attack choppers for Army

New Delhi, 16 August

Defence major Boeing on Wednesday said it had started producing AH-64E Apache attack helicopters in Mesa, Arizona, in an encouraging sign for Indian Army's mechanised strike formations.

Boeing will deliver six AH-64E Apache helicopters to the Indian Army for ₹4,168 crore. All six of these Apaches are to be delivered by 2024.

Since independence in 1947, the Indian Air Force (IAF) has insisted on retaining control of combat aviation assets, especially attack helicopters, which

under their control. Even as the Army began operating light utility helicopters and established its own Army Aviation Corps, the IAF retained control of medium and heavy lift helicopters (Mi-17 and Mi-26) and attack heli-

copters (Mi-35).

The IAF's control over the helicopter fleet was underscored in September 2015, when \$3 billion worth of helicopters - 22 Boeing AH-64E Apache attack helicopters and 15 CH-47F Chinook heavy lift choppers - were handed over to the IAF, overruling the Army's arguments that

attack helicopters, which

the air marshals have kept are an integral part of ground battle, should be flown by army aviation pilots. The IAF intends to use its 22 Apaches for "air defence operations".

This involves taking out enemy radars and command and control centres. Meanwhile, the Army's Apaches would be employed for destroying armoured vehicles on the mechanised battlefield.

As a part of transferring production of defence equipment from the US to India, Boeing and the Tata group have formed a joint venture called Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL).

Road ministry looks to allay CAG concerns on cost escalation

Dwarka e-way cost normal for large-scale project: Official

DHRUVAKSH SAHA New Delhi, 16 August

Amid severe political backlash, the Ministry of Road Transport and Highways is likely to respond to the conclusions made by the Comptroller and Auditor General (CAG) and allay the auditor's concerns about unrealistic cost escalations in the Dwarka Expressway project, among other possible lapses, a top ministry official said on Wednesday.

The CAG, in its report on the implementation of Bharatmala Pariyojana, found that the National Highways Authority of India (NHAI) board approved the Dwarka Expressway with "civil cost of ₹7,287.29 crore with per km ₹250.77 crore as against per kilometre (km) civil cost of ₹18.2 crore approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)".

The source said that the auditor's calculations do not factor in increased costs of land acquisition, the complicated nature of the project and the additional costs incurred on account of that, as it simply takes a broad-

The Dwarka expressway, features an eightlane and a six-lane tunnel, along with some elevated service roads, which require higher construction costs than basic highways.

'The average cost of an elevated road even in the most conservative scenario is at least ₹100 crore per km. Moreover, the plan head of greenfield expressways in the Bharatmala pipeline explicitly mentions that cost can be established after Detailed Project Report as there are no standard cost norms for these components," the official said.

According to the ministry's estimates, the actual civil cost of the project is actually much lower than the CAG's claim and even to tender for all four packages of the Dwarka to the lowest bidders.



Actual civil cost of the project was lower than the CAG's claim and even the initial estimate. according to ministry estimates

Expressway was ₹206.4 crore per km, while the actual awarded civil cost was 12 per cent lower, at ₹182 crore per km.

Another issue flagged by CAG was that executing agencies did not follow the appraisal and approval mechanism prescribed by the Union cabinet committee on economic affairs (CCEA) for Bharatmala Phase-1. "Out of 50 sample projects of NHAI, in the case of eight projects, appraisal by Project Appraisal and Technical Scrutiny Committee was not done due to either these being appraised under the NHDP programme or they being balanced works/ one-time improvement works," the report said.

Sources in the ministry said that each of the four packages of the expressway saw a the initial estimate. The average civil cost put minimum of four bids, and all were awarded

Chandrayaan-3 manoeuvre

PRESS TRUST OF INDIA Bengaluru, 16 August

India's Chandrayaan-3 spacecraft on underwent a fifth and final lunar-bound orbit manoeuvre, bringing it even closer to the surface of the Moon.

The spacecraft has completed all of its Moon-bound manoeuvres, and it will now prepare for separation of the lander module — comprising the lander and rover — from he propulsion module

needed for a short duration, has put Chandrayaan- III into an orbit of 153 km x 163 km, as intended. With this, the lunar bound manoeuvres are completed. It's time for preparations Propulsion Module and the Lander Module gear up for their separate journeys,' ISRO said in a post on X (formerly Twitter).

Separation of the lander module from the propulsion module is planned for August 17, it said. After its launch on July 14, Chandrayaan-3 entered into the lunar orbit on August 5, following which orbit reduction manoeuvres were carried out on August 6. 9 and 14. As the mission progressed, a series of manoeuvres were being conducted by ISRO to gradually reduce Chandrayaan-III's orbit to position it over lunar poles.

undergoes 5th and final **lunar** orbit

ambitious

"Today's successful firing,

NDA'S NEWEST MEMBERS SHOW UP AT VAJPAYEE MEMORIAL



The National Democratic Alliance (NDA) showcased its unity on Wednesday as its leaders turned up to pay homage to former prime minister and NDA founder Atal Bihari Vaipavee on his fifth death anniversary, at his memorial, Sadaiy Atal, in New Delhi, President Droupadi Murmu, and Prime Minister Narendra Modi were flanked by Home Minister Amit Shah, Nationalist Congress Party's Praful Patel, Hindustani Awam Morcha chief Jitan Ram Manjhi, and Tamil Maanila Congress' GK Vasan, among others

M UCO BANK

Head Office-II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064

NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank Invites tender for the following:

Onboarding of service provider(s) for carrying out the customization activity of various IT applications through GeM portal (Re-tendering). For any details, please refer to https://www.ucobank.com o https://gem.gov.in

(Deputy General Manager) Date: 17.08.2023 Department of Information Technology

NOTICE TATA MOTORS LIMITED

NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Compan has been lost/misplaced and the holders of the said securities have applied to the Company t

ssue duplicate certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the ompany at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to

sue duplicate certificate(s) without further intimation.								
Name of Share Holders	Kind of securities & face value	Certificate No	_ Distillotive No.	s. No. of Shares				
1. GEORGE EAPEN 2. SARAMMA GEORGE	Equity shares of FV Rs.2	59877	41893136 - 41898	510 5375				

GEORGE FAPEN Date: 17.08.2023

CIN: U24246TN1991PLC020409, Website: www.nagamills.com, E-mail: cs@nagamills.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

ı				Standalone				Consolidated			
	S.	Particulars		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		<u> </u>	Year Ended	
ľ	No.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
	1	Total Income from Operations	519.11	534.88	491.48	2,106.15	519.11	534.97	491.64	2,106.34	
	2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	21.89	21.32	25.18	96.96	21.89	16.04	25.34	97.01	
	3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax and Exceptional items)	1.90	1.26	6.72	20.00	1.90	(0.21)	6.88	20.05	
	4	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	1.90	1.26	6.72	20.00	1.90	(0.21)	6.88	20.05	
	5	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	1.35	0.69	6.57	13.01	1.35	(0.78)	6.73	13.06	
	6	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)}	1.35	(0.55)	6.57	11.77	1.35	(2.02)	6.73	11.82	
ľ	7	Equity Share Capital	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	
	8	Earnings Per Share (of Rs. 10 each) Basic and Diluted EPS Rs.	0.95	0.49	4.61	9.13	0.95	(0.54)	4.72	9.17	

1) The above results were reviewed by Audit Committee and taken on record and were thereafter approved by Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2023 These results have been audited by Statutory Auditors of the Company who have instead approved by Solard to little. These results have been audited by Statutory Auditors of the Company who have issued unmodified Audit Report thereon 2) The full format of Quarterly and Year ended Financial Results is available on the Company's website www.nagamills.com.

For and on behalf of the Board K.S. KAMALAKANNAN



Place: Chennai Date: August 14, 2023

RSWM LIMITED

Reaistered Office: Kharigram, P.O. Gulabpura – 311 021, Distt. Bhilwara, Rajasthan Phone: +91-1483-223144 to 223150, 223478, Fax: +91-1483-223361, 223479 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P)

Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841 E-mail: rswm.investor@Injbhilwara.com; Website: https://www.rswm.in

NOTICE OF THE 62nd ANNUAL GENERAL MEETING OF RSWM LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of RSWM Limited ("the Company") will be held on Friday, the 15th day of September, 2023 at 02:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the 62nd AGM which will be sent in due course of time. The venue of the meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company at Kharigram, P.O. Gulabpura -311 021, Distt. Bhilwara

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 in furtherance of its earlier

circulars (Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8^{th} , 2020, April 13^{th} , 2020, May 5^{th} , 2020 respectively and subsequent circulars 02/2021, 21/2021 and 02/2022 dated January 13^{th} , 2021, December 14^{th} , 2021 and May 5^{th} , 2022 as also the various circulars issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular dated 5th January, 2023, (read together with Circulars dated 13th May, 2022 , dated 15th January, 2021 and dated 12th May, 2020) (collectively referred as "Applicable Circulars") permitted the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), without the physical presence of the members at the AGM venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 62nd AGM of the Company shall be conducted through **VC/OAVM** without the physical presence of the members at the AGM venue. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the

government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.rswm.in., on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com).

Members may note that the Board of Directors of the Company at their meeting held on 26th May, 2023 has recommended a dividend of ₹ 5/- (50%) per share on the face value of ₹ 10/- per share for the financial year 2022-23 subject to the approval of the members of the Company at the 62nd AGM. Accordingly, the date for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for financial year 2022-23 is **Friday, 8th September, 2023.**

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 9th September, 2023 to Friday, the 15th September, 2023 (both days inclusive) for the purposes of 62nd Annual General Meeting of the Company and for payment of dividend for financial year 2022-23, if declared at the AGM. The Dividend, if declared, will be paid within 30 days rom the date of AGM through various online transfer modes to the members who have updated their bank account details with the Depositories in case of shares held in Demat mode and with the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, in case shares are held in physical mode. For Members, who have not updated the bank account details, dividend warrants/demand drafts /cheques will be sent to the registered addresses by permitted mode.

The Company will be providing facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has made arrangement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

The remote e-voting period commences on Tuesday, the 12th September, 2023 (9:00 a.m.) and end on Thursday, the 14th September, 2023 (5:00 p.m.). Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off date of Friday, the 8th September, 2023, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off date of Friday, the 8th September, 2023 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM. ogin details for e-voting shall be made available to the members on their registered email address.

Manner of registering of Email addresses and mandate of receiving Dividend electronically, if declared in the AGM:

Members are requested to provide their email addresses and bank account details to Registrar and Share Transfer Agent i.e. MCS Share Transfer Agent Limited of the Company or Depository Participants (DP). The process of registering the same is mentioned below:

In case Physical shareholding

Send a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: RSWM Limited), F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or scanned copy on email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com and provide the following details/documents for registering email address:

a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Copy of PAN card (self-attested), e) Copy of Aadhar (selfattested) f) Copy of share certificate (front and back).

Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder

In case Demat shareholding

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice

Members may further note that, as per the Income Tax Act, 1961 (hereinafter referred to as IT Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividends paid or distributed by the Company after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said Dividend, if declared at the ensuing AGM. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by shareholder of the Company and accepted by the Company. Accordingly, the Dividend will be paid after deducting TDS as per applicable TDS rates.

The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents/declarations to the Company at tds. rswm23@Injbhilwara.com /Company's RTA i.e. M/s. MCS Share Transfer Agent Limited to enable the Company in applying the appropriate TDS on Dividend payment. In this regard, a 'General Communication on Tax Deduction at Source on Dividend for the Financial Year 2022-23' was sent on 21st July, 2023 to all the shareholders and copy of the said communication is also available on the website of the Company at the following link https://www.rswm.in/Intimation-Communication-of-TDS-

In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" available at downloads section of "http://www.evoting.nsdl.com" or call call at 022- 4886 7000 and 022- 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Sr.Manager, NSDL, at evoting@nsdl.co.in.

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular(s).

By order of the Board for RSWM LIMITED **Surender Gupta VP Legal & Company Secretary** FCS - 2615

Place: Noida (U.P.) Date: 16th August, 2023

एग्रोकेमिकल फॉर्मूलेशन निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख कंपनी है 'क्रॉप लाइफ साइंस लि.'

18 अगस्त को खुलकर 22 अगस्त, 2023 को बंद होगा कंपनी का आईपीओ



CROP LIFE SCIENCE LTD.

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।

अहमदाबाद आधारित कंपनी 'क्रॉप लाइफ साइंस लि.' एग्रोकेमिकल फॉर्म्लेशन निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख कंपनी है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकता और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज की टीम ने कंपनी प्रबंधन से कंपनी की कारोबारी गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की।

कंपनी की कारोबारी गतिविधियांः वर्ष 2006 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि रसायन बनाती है जिसमें कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी और खरपतवारनाशी शामिल हैं। कंपनी की विनिर्माण इकाई जीआईडीसी अंकलेश्वर, गुजरात में स्थित है, जो 5831.10 वर्ग मीटर में फैली हुई है। कंपनी अपने उत्पादों को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजीप्ट, म्यांमार, वियतनाम, सडान और अन्य देशों में निर्यात करती है। कॉप लाडफ साइंस के उत्पाद केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (''सीआईबी'') के साथ पंजीकृत हैं और कृषि निदेशालय, गुजरात सरकार और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (''जीपीसीबी'') द्वारा अनुमोदित हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 85 से अधिक कृषि-रसायन उत्पाद शामिल हैं। वर्ष २००७ में कंपनी ने 25 से अधिक कृषि रसायन उत्पादों का उत्पादन शुरू किया था। इसके बाद कंपनी ने साल-दर-साल कृषि रसायन उत्पाद अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जोडे। कंपनी देश में खंय के ब्राण्ड में उत्पादों की मार्केटिंग के अलावा विदेशी ग्राहकों व विदेश में स्थित प्रतिष्ठित कंपनियों को थोक में कृषि रसायन फॉर्मूलेशन की आपूर्ति भी कर रही है। वर्तमान में कंपनी को करीब 98 फीसदी कारोबार घरेलू बाजारों से और

कंपनी प्रवर्तकों का अनुभव



कंपनी प्रवर्तक 53 वर्षीय राजेश लुनागरिया कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं। उनके पास इंजीनियरिंग और कृषि रसायन उद्योग में विनिर्माण, उत्पादन, खरीद, विपणन में 22 वर्षों का बहुआयामी अनुभव है। उन्होंने गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर से अपनी एसएससी परीक्षा पूरी की।

उनके पास कृषि रसायन व्यवसाय में 30 वर्षों का अनुभव है। वें कंपनी में उत्पादन, अनुसंधान, क्यूसी और विपणन विभाग की जिम्मेदारियां सभांल रहे हैं।



अश्विन लुनागरिया

कंपनी प्रवर्तक 58 वर्षीय अश्विन लुनागरिया कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक भी हैं। उन्होंने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से विज्ञान (भौतिकी) में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उनके पास रसायन उद्योग और कृषि रसायन व्यवसाय में ३५ वर्षों का व्यापक अनुभव है। कंपनी में वें प्रशासन, लेखा, वित्त और कानूनी विभाग संभालते हैं।

IPO Date	Aug 18, 2023 to Aug 22, 2023
Listing Date	U
Face Value	₹10 per share
Price	₹52 per share
Lot Size	2000 Shares
Total Issue Size	5,140,000 shares (aggregating up to ₹26.73 Cr)
Fresh Issue	5,140,000 shares (aggregating up to ₹26.73 Cr)
Issue Type	Fixed Price Issue IPO
Listing At	NSE SME
Share holding pre issue	12,000,000
Share holding post issue	17,140,000
Market Maker portion	260,000 shares Nikunj Stock Brokers

करीब 2 फीसदी विदेशी बाजारों से हासिल हो रहा है। आने वाले समय में कंपनी का लक्ष्य विदेशी बाजारों में अधिक कारोबार

हासिल करने का है। कंपनी के प्लांट में आधुनिक मशीनों के साथ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। इससे कंपनी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इकाई का दर्जा हासिल हुआ है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 135.31 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 3.23 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 119.50 करोड रुपए का राजस्व एवं ३.७० करोड रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 102.38 करोड़ रुपए का राजस्व एवं २.८१ करोड़ रुपए कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2023 की 28 फरवरी को समाप्त अवधि में 123.23 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 4.36 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2023 की 28 फरवरी को समाप्त अवधि में कंपनी की कुल असेट करीब 104.71 करोड़ रुपए, नेटवर्थ ४०.३८ करोड़ रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस 28.38 करोड़ रुपए दर्ज किया है। कंपनी पर करीब 26.82 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। नेटवर्थ के मुकाबले कंपनी पर कर्ज आरामदायक स्थित में है। वित्त वर्ष 2023 की 28 फरवरी को समाप्त अवधि के ईपीएस के अनुसार कंपनी का आईपीओ करीब 14.29 के फोवर्ड पीई मल्टीपल पर आ रहा है।

कंपनी के आईपीओ के संबंध में जानकारीः कंपनी का आईपीओ 18 अगस्त को खुलकर २२ अगस्त,२०२३ को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपए फेसवेल्यू के 5140000 शेयर 52 रुपए प्रति शेयर के भाव से जारी कर 26.73 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का मार्केट

लॉट साइज २००० शेयरों का है। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन इंट्रेक्टिव फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के आईपीओ में मार्केट मैकर जिम्मेदारी प्रमुख केपिटल मार्केट कंपनी निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड द्वारा संभाली जा रही है।

नोटः आईपीओ की खबर मात्र एक सूचना है। इसे निवेश सलाह ना समझा जाये।

पृष्ठ १ का शेष...सीयी बात... बनाकर पवन अरोड़ा ने जयपुर महानगर को चार चांढ़ लगाने का काम किया है। पोलो मैच कराकर मंडल ने अपनी कार्य शैली को विस्तार ढ़ेन का प्रयास किया है। चार दिवसीय २७वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेल-कूढ़ प्रतियोगिता का सफल आयोजन विभाग की ऊर्जा को प्रकट करता है।

राजस्थान में आवासन मंडल के कार्यों की समीक्षा की जाए तो चार वर्ष में पहली बार ऐसा समय आया है जब आम जन को मंडल के मकानों के प्रति विश्वास पैदा हुआ हे बिल्डर द्वारा बनाए गए मकानों की तुलना में आवासन मंडल के प्रति लोगो का रूझान बढ़ने का कारण गुणवत्ता को माना जा सकता है। वास्तु का ध्यान रख कर आवासन मंडल ने जन भावना और लोगो की आस्था का सम्मान किया है। कुल मिलाकर आवासन मंडल की गुणवत्ता सुधारकर जयपुर को अनेक ऐतिहासिक सौगात बेकर जयपुर की सुंबरता को बढ़ाने के लिए यदि हम पवन अरोड़ा को आधुनिक जयपुर के नव शिल्पकार कहे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। कार्य कुशलता के कारण ही पवन अरोड़ा के प्रति चाहे किसी भी दल की सरकार बने उसने विश्वास रखा है उनकी कार्य कुशलता को सलाम

Email.: eeelecljpr@rajasthan.gov.in, eepwdeljpr@gmail.com OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD ELECTRICDIVISION-I, JAIPUR

Notice Inviting Bid-15/2023-24

Bids for Electric work 1 Electric Day to Day General Repair & Maintenance work in Nehru Bhawan. RSVK Building and Patel Bhawan. Campus. Vishranti. Guest House, Cotteges at HCM RIPA, Jaipur., 2. Construction of Tourist Facility Centre, Main Gate Boundary wall in Khalsa Heritage Complex, Jaipur, (Electrica work) 3. Replacement and Shifting Panels and Cabling work at Yojna Bhawan 19.08.2023 6.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppps.raj.nic.in) of the state; and http://pwd.rajasthan.gov.in. The approximate value of the procurement is Rs

UBN NO.: PWD2324WSOB10093,PWD2324WSOB10094, PWD2324WSOB10095

D.I.P.R./C/11964

(Pradeep Kumar Sharma) **Executive Enginee**

PWD Electric Dn. I, Jaipur GLOBAL ग्लोबल सरफेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: पीए-10-006 इंजीनियरिंग और रिलेटेड इंडस सेज , महिंद्रा वर्ल्ड सिटी

तह. – सांगानेर, जयपुर राजस्थान – 302037 आईएन, दूरभाष: 0141–7191000 CIN: L14100RJ1991PLC073860 वेबसाइट:– www.globalsurfaces.in; ईमेल:– cs@globalsurfaces.in 32वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फेंस और

अन्य जानकारी पर आयोजित की जाएगी

नोटिस दिया जाता है कि ग्लोबल सर्फेस लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 32वीं (बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को दोपहर 01.00 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी) पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम (अधिनियम) और उसवे तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑंडियो–विज़्अल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से (सूची दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 और 10/2022 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के साथ पढ़ें। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वार क्रमशः 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 5 मई 2022 और 28 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया (एमसीए परिपत्र) और परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ, सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ पी /2020/79, सेबी/ एचओ/ सीएफडी, सीएमडी2/ सीआईआर/ पी/ 2021/11, सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी2/ सीआईआर/ पी/2022/62 और सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ पीओडी-2/ पी/सीआईआर 2023/4 दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए जारी किया गया। एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (वार्षिक रिपोर्ट) शामिल हैं, भेजा जाएगा। निश्चित रूप से, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से (अर्थात उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से, जिनके ई-मेल पर्ते कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्या से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश औ एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग में भाग लेने या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती की जाएगी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना करने का उद्देश्य। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसे www.globalsurfaces.in, वेबसाइट पर देखा जा सकता है स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपने ई–मेल पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों और एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा, उपर्युक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों के सूचना उद्देश्य और लाभ के लिए, प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।

स्थान: जयपर

वास्ते ग्लोबल सरफेस लिमिटेड असीम सहगल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी दिनांक: 16 अगस्त, 2023 एम. नं. A55690

निफ्टी फ्यूचर 19606 अंक अहम स्तर...!!!

दिनांक 17.08.2023 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में....

दिनांक 16.08.2023 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 19484 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 19373 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 19505 - 19577 -19606 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए १९३०३ रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की

रिथिति...!!! दिनांक 16.08.2023 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 44074 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर ४३८८० अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर ४४१०८ - ४४१८८ -44303 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 43676 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की

अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

ट्रेंट लि. (1964) :- टाटा ग्रुन की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 1940 रुपये के आसपास है। 1923 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकने

प्रबंधन के आदेश से सूचना बिजनेस रेमेडीज के सभी पृष्ठों पर प्रकाशित

निवेश या अन्य किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेवें। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्णय लेने वाले के स्वंय की होगी। किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए बिजनेस रेमेडीज जिम्मेदार नहीं होगा।



निखिल भट्ट रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत



वाला यह स्टॉक 1977 से 1984 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!! 1990 रुपये पर तेजी का रुख

ग्लेनमार्क फार्मा (799):- फार्मा सेक्टर के शेयर में 814 रुपये से 820 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 783 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का

लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं। विशेष नोट:- डिस्कलमर / नीति / शर्ते www.nikhilbhatt.in के

अधीन...!!! नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

INDEX		Above /	Conf.		Normal Target		On Trending times.		
		Below	Com	T1	T2	T3	T4	T5	T6
IFTY CA	For BUY Above	19,489	19,505	19,517	19,529	19,546	19,557	19,593	19,633
IFTY Spot	For SELL Below	19,441	19,426	19,413	19,401	19,384	19,373	19,337	19,297
.Nifty Spot	For BUY Above	44,009	44,048	44,080	44,111	44,156	44,183	44,276	44,378
	For SELL Below	43,883	43,845	43,813	43,782	43,737	43,710	43,617	43,515

बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३०१, आनंद प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर, राजस्थान ३१३००१

		5 अन-अंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों का ब्यीरा (रुपये लाखों में प्रति शेयर के आंकडों को छोड़कर)					
क्र.	विवरण			समाप्त वर्ष			
सं.		30-जून,2023	30-जून,2022	31-मार्च,2023	31-मार्च,2023		
		अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित		
1.	परिचालनों से राजस्व	-	-	-	-		
2.	अन्य आय	-	-	-	-		
3.	কুল आय (1+2)	-	-	-	-		
4.	व्यय						
(क)	खपत सामग्री की लागत	-	-	-	-		
(ख)	स्टॉक-इन-ट्रेड खरीद	-	-	-	-		
(য)	तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन,						
	स्टॉक-इन-ट्रेड और कार्य-प्रगति	-	-	-	-		
(ঘ)	कर्मचारी लाभ व्यय	7.08	6.80	14.02	37.16		
(इ)	वित्त व्यय	-	-	-	0.05		
(च)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33.98	31.74	42.75	137.98		
(छ)	उत्पाद शुल्क	-	-				
(ज)	अन्य व्यय	20.79	40.24	36.80	138.21		
	कुल व्यय	61.85	78.78	93.57	313.40		
5.	लाभ/(हानि) असाधारण वस्तुएं और कर से पहले (3-4)	(61.85)	(78.78)	(93.57)	(313.40)		
6.	असाधारण वस्तुएं						
7.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (5-6)	(61.85)	(78.78)	(93.57)	(313.40)		
8.	कर खर्च						
9.	लाभ/(हानि) अवधि के लिए (7-8)						
10.	अन्य व्यापक आय						
	(क) वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	(ख) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या (हानि) के लिए						
	पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा						
11.	अविध के लिए कुल व्यापक आय (9+10)						
12.	पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी (ऑकित मूल्य 10/-रुपये प्रति)	142,971,520.00	102,971,520.00	142,971,520.00	142,971,520.00		
13.	रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को						
	छोड़कर) - अन्य इक्विटी						
14.	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)	(0.43)	(0.77)	(0.65)	(2.06)		
	मूल						
	तनुकृत	1					

१. कंपनी को इन्सॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. 2016 के तहत सीआईआरपी के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानन टिब्यनल (एनसीएलटी) ने अपने आदेश दिनांक 13.10.2022 द्वारा अनमेदित समाधान योजना के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। समाधान योजना निगरानी सिमित के मार्गदर्शन में कार्यान्वयन चरण में है। 2. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमुहित या पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

3. 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च 2023 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षित आंकड़ों और वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के आंकड़ों के बीच संबंधित संतुलन आंकड़े हैं। 4. कंपनी केवल एक सेगमेंट के तहत काम करती है और इसलिए एस-17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

शक मंडल के लिये और बोहरा इंडस्ट्री की ओर से कृष्णा अग्रवाल

DIN:09402238

दिनांकः 14.08.2023

RSWM Limited

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479 कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@Injbhilwara.com; वेवसाइट: http://www.rswm.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड की 62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड **("कम्पनी")** की 62वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को 2:00 बजे अपराह 62वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा — 311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए"**) ने अपने परिपत्र सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, अपने पहले के परिपत्रों (परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 क्रमशः तथा उसके पश्चात् परिपत्र 02/2021, 21/2021 एवं 02/2022 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 और साथ ही भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अपने विभिन्न परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) **("सामृहिक रूप से लागू परिपत्रों के रूप में संदर्भित")** के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("वीसी/** ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो—ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.rswm.in</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंकित मूल्य रुपये 10 / – प्रति शेयर पर रुपये 5 / — (50%) प्रति शेयर के लाभांश, 62वीं एजीएम में कम्पनी के सदस्यों के अनुमोदन के विषयस्वरुप, की अनुशंसा की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए तिथि शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पस्तकें **शनिवार, 9 सितम्बर, 2023, से शकवार, 15 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक** कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लामांश के भुगतान, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे। लाभांश का भुगतान, यदि घोषित किया जाता है तो एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, उन सदस्यों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिन्होंने – डीमैट के तौर पर धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक तौर पर धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक अनुमत माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेत्, कम्पनी ने **नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेत् अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार, 12 सितम्बर, 2023 (9:00 बजे पूर्वांह्र) से प्रारम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 (5:00 बजे अपराह्र) समाप्त होगी। शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइण्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल

ईमल पते के पंजीकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से लामांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, प्राप्त करने के अधिदेश की प्रणाली:

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट अर्थात एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

> कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड) एफ–65, प्रथम** तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज— I, नई दिल्ली —110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <u>helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</u> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित

के मामले में

स्थानः नोएडा (उ.प्र.)

क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे)

बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण ∕ दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:

सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति

डीमैट होल्डिंग कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या ई–वोटिंग

सदस्य आगे ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, (इसके आगे आईटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को उक्त लाभांश, यदि आगामी एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं कम्पनी के शेयरधारक द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग–अलग होगी। तदनुसार, लागू टीडीएस दरों के अनुसार टीडीएस काटने के बाद लाभांश का भूगतान किया जाएगा।

अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज ⁄ घोषणाएं कम्पनी को <u>tds.rswm23@Injbhilwara.com</u> पर ⁄ कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लामांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो। इस संबंध में, 21 जुलाई, 2023 को सभी शेयरधारकों को "वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लाभांश में स्रोत पर कर की कटौती पर सामान्य संचार" भेजा गया था एवं इस संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट के लिंक https://www.rswm.in/Intimation-Communication-of-TDS-on-Dividend पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <u>http://www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022-4886 7000 एवं 022-2499 7000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ऑ) के अनुपालन में है। मंडल के आदेशानुसार

कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

सुरेन्दर गुप्ता वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव एफसीएस–2615 दिनांकः 16 अगस्त, 2023

महिंद्रा ने लांच की छोटे ट्रैक्टरों की नई रेंज

केपटाउन (दक्षिण अफ्रीका)/एजेंसी

घरेलू व्हीकल विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगले तीन वर्षों में ट्रैक्टर का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने की योजना के तहत छोटे आकार के ट्रैक्टर की एक नई श्रृंखला का अनावरण किया। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 18,000 ट्रैक्टरों का निर्यात किया था।

कंपनी ने कहा कि उसने ट्रैक्टरों के लिए ओजेए प्लेटफॉर्म के विकास पर 1,200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस प्लेटफॉर्म पर 20-70 एचपी क्षमता वाले उत्पाद बनाए जा सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य नई रेंज के साथ विशेष रूप से भारत, अमेरिका और आसियान क्षेत्र में छोटी जोत वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष (कृषि उपकरण) हेमंत सिक्का ने कहा कि ओजेए ब्रांड बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ नए बाजारों में प्रवेश करने में भी मदद करेगा।



रूप से मददगार होंगे।"

निर्यात के आंकड़े को दोगुना करना चाह रहे हैं। ओजेए प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किए। उन्होंने कहा कि को भी लक्षित करेगा। सिक्का ने कहा, ''हम इस लक्षित करने की स्थिति में होंगे।''

यह लक्ष्य हासिल करने में ओजेए ट्रैक्टर प्रमुख कंपनी ओजेए उत्पादों के साथ तीन प्रमुख मंच के माध्यम से दुनिया के हर कोने में मौजूद भौगोलिक क्षेत्रों - भारत, आसियान और रहेंगे। इससे 12 नए देशों के दरवाजे भी कंपनी के महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार के अमेरिका को लक्षित करने जा रही है। यह नई रेंज लिए खुलेंगे। इसके साथ हम हल्के वजन वाले उन्होंने कहा, ''हम तीन साल में अपने लिए सात उत्पाद पेश करने के साथ यहां तीन के साथ यूरोप और अफ्रीका के भौगोलिक क्षेत्रों वैश्विक ट्रैक्टर उद्योग के 25 प्रतिशत बाजार को

RSWM Limited

किआ सेल्टोस के नए वेरिएंट की एक महीने में 31,716 बुकिंग

नयी दिल्ली/एजेंसी। किआ के प्रमुख एसयुवी मॉडल सेल्टोस के हाल ही में पेश नए संस्करण की एक महीने में 31,716 बुकिंग मिली हैं। किआ इंडिया ने यह



जानकारी दी। कंपनी ने नई सेल्टोस की बुकिंग 14 जुलाई, 2023 को शुरू की थी। इस मॉडल की शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये है। किआ इंडिया ने बयान में कहा, लगभग 55 प्रतिशत बुकिंग महंगे मॉडल (एचटीएक्स और उससे ऊपर) के लिए है। कंपनी ने कहा कि भारत में 2019 में आने के बाद से कुल मिलाकर लगभग पांच लाख सेल्टोस की सेल्स हो चुकी है। किआ को भारत में स्थापित करने का श्रेय सेल्टोस को ही जाता है। किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईटो) ताए-जिन पार्क ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि नई सेल्टोस आने वाले समय में सफलता की नई कहानी लिखेगी और इस खंड में बडा विस्तार करेगी।

ओला इलेक्ट्रिक ने ७९,९९९ रुपये की कीमत में उतारा नया ई-स्कृटर

नयी दिल्ली/एजेंसी। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एस1एक्स 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया। कंपनी के एक बयान के मुताबिक,



तिमलनाडु के कृष्णागिरि में स्थित ओला फ्यूचर फैक्टरी में संस्थापक एवं मख्य कार्यपालक अधिकारी भवीश अग्रवाल ने कहा कि इस इलेक्टिक स्कूटर को तीन संस्करणों में पेश किया जा रहा है। इन संस्करणों में दो किलोवाट और तीन किलोवाट के बैटरी लगी हुई हैं। अग्रवाल ने कहा कि दो किलोवाट की बैटरी वाले संस्करण की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये रखी गई है, लेकिन एक हफ्ते बाद इसकी कीमत बढकर 89,999 रुपये हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई हैं और इनकी आपूर्ति दिसंबर से शुरू होंगी। इस ई-वाहन से 10-20 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने एस1प्रो स्कूटर की दूसरी पीढ़ी को 1,47,499 रुपये की कीमत पर पेश किया।

इस दशक के अंत तक इंडिया में ईवी की सालाना सेल्स होगी 10 लाख यूनिट्स'



नयी दिल्ली। टाटा मोटर्स ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की सालाना सेल्स का आंकडा 10 लाख युनिटस को पार कर सकता है। कंपनी को इस दौरान अपनी कूल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। देश की प्रमुख व्हीकल कंपनी वर्तमान में तिमाही आधार पर अपनी कूल सेल्स का 14-15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से प्राप्त करती है। कंपनी ने एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, पांच साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रति माह महज 90 यूनिट्स बिकते थे। आज ये प्रति माह ८,५०० से ९,५०० यूनिट्स पर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 100 गुना है...पांच साल पहले उद्योग ने लगभग 2,000 कारें बेची थीं और हम इस वर्ष पहले से ही एक लाख से अधिक यूनिट्स की वार्षिक दर के बारे में बात कर रहे हैं, जो 50 गुना वृद्धि है। चंद्रा ने कहा कि अगले पांच साल में यह कम से कम-से-कम 10 गुना होकर 10 लाख यूनिट्स के करीब क्यों नहीं होना चाहिए, यही मैं कहूंगा... यह भारतीय उपभोक्ताओं और देश के लिए एक रोमांचक समय होगा क्योंकि इस दृष्टिकोण को साकार किया जा सकता है, जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था।

विशेष

आर्थिक मंदी गहराने के बीच चीन युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर ताजा जानकारी देने से परहेज कर रहा



बीजिंग / एजेंसी। चीन में युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ने पर सरकार ने ताजा जानकारी देने से परहेज किया है, वहीं आधिकारिक डेटा में

प्रदर्शित हुआ कि जुलाई में आर्थिक मंदी गहरा गई है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से एक प्रमुख ब्याज दर में कटौती की है। जून में एक सर्वेक्षण में 16 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु के शहरी कामगार युवाओं में बेरोजगारी 21.3 प्रतिशत पाई गई और आबादी का यह हिस्सा महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने पर काम नहीं पा सका। हालांकि, आयु वर्ग के आधार पर बेरोजगारी दर का प्रकाशन संदिग्ध है, जबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो इस पर विचार कर रहा है कि

वह डेटा का मापन कैसे करे।

बयूरो के प्रवक्ता फु लिंघुई ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरी कामगारों के बीच संपूर्ण बेरोजगारी 5.3 प्रतिशत है, जो जून से 0.1 प्रतिशत तक अधिक है। फु ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''बेरोजगारी की स्थिति आमतौर पर स्थिर है।'' फु के मुताबिक, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि एक साल पहले के जुलाई महीने की तुलना में, पिछले महीने के 3.1 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई है। आंकड़े के मुताबिक, फैक्टरी उत्पादन में वृद्धि 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत हो गई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए अमेरिका, यूरोपीय केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर घटाने के बाद निर्यात मांग घटने पर ऐसा हुआ। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंकों को एक सप्ताह के ऋग पर ब्याज दर 1.9 से घटाकर 1.8 प्रतिशत कर दी है।



CAREER POINT LIMITED

Registered Office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab-140601-India Corporate Office: CP Tower-1, Road No.1, IPIA, Kota-324005 (Raj.) CIN: L80100PB2000PLC054497 | Ph: 080-47250011 | website: www.cpil.in | E-mail: investors@cpil.in EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30 JUNE, 2023

Particulars	Quarter Ended (30/06/2023)	Quarter Ended (31/03/2023)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2022)	Year ended (31/03/2023)
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited & Re-stated)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	2899.08	2482.65	1960.52	8536.69
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	1625.08	-1629.05	944.95	1219.17
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	1625.08	-1629.05	944.95	1219.17
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1816.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance	-	-	-	-
sheet of previous year				
Earnings Per Share (EPS)				
a) Basic EPS	8.93	-8.99	5.19	6.57
b) Diluted EPS	8.93	-8.99	5.19	6.57

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2023
(Amount in ₹ Lakhs)

Particulars	Quarter Ended (30/06/2023)	Quarter Ended (31/03/2023)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2022)	Year ended (31/03/2023)
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1683.97	1278.43	1413.57	5189.89
Net Profit from Ordinary Activities after tax before	705.01	553.92	629.56	2219.35
Minority Interest				
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance	-	-	-	-
sheet of previous year				
Earnings Per Share (EPS)				
a) Basic EPS	3.88	3.04	3.46	12.20
b) Diluted EPS	3.88	3.04	3.46	12.20

Place: Kota (Rajasthan)

Date: 14th August, 2023

1. The audited standalone and consolidated financial results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2023.

2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpil.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

> BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR CAREER POINT LIMITED

PRAMOD MAHESHWARI Chairman, Managing Director and CEO DIN-00185711

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479 कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@Injbhilwara.com; वेवसाइट: http://www.rswm.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड की 62वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड **("कम्पनी")** की 62वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 को 2:00 बजे अपराह 62वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा — 311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपन्न सं. 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022, अपने पहले के परिपन्नों (परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांकित ८ अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२०, ५ मई, २०२० क्रमशः तथा उसके पश्चात् परिपत्र ०२/२०२१, २१/२०२१ एवं ०२/२०२२ दिनांकित १३ जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 और साथ ही भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अपने विभिन्न परिपत्र दिनांकित 5 जनवरी, 2023 (के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 13 मई, 2022, दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं दिनांकित 12 मई, 2020) **("सामृहिक रूप से लागू परिपत्रों के रूप में संदर्भित"**) के हवाले से कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("वीसी/** ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन एजीएम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो–ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.rswm.in</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंकित मूल्य रुपये 10/– प्रति शेयर पर रुपयं 5/— (50%) प्रति शेयर के लाभाश, 62वीं एजीएम में कम्पनी के सदस्यों के अनुमीदन के विषयस्वरुप, की अनुशसा की है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए तिथि शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 9 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक** कम्पनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लाभांश के भुगतान, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे। लाभांश का भुगतान, यदि घोषित किया जाता है तो एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, उन सदस्यों को विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिन्होंने – डीमैट के तौर पर धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक तौर पर धारित शेयरों के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। जिन सदस्यों ने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक अनुमत माध्यम से उनके पंजीकत पते पर भेजे जाएंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि मंगलवार, 12 सितम्बर, 2023 (9:00 बजे पूर्वाह्र) से प्रारम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 14 सितम्बर, 2023 (5:00 बजे अपराह्र) समाप्त होगी। शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेत् पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ईमेल पते के पंजीकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, प्राप्त करने के अधिदेश की प्रणालीः

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

> कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यृनिटः आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड) एफ–65, प्रथम** तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज— I, नई दिल्ली —110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <u>helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</u> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित

के मामले में

भौतिक होल्डिंग क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे)

बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण / दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:

क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ड) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति

कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता

सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या ई–वोटिंग

सदस्य आगे ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, (इसके आगे आईटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को उक्त लाभांश, यदि आगामी एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति एवं कम्पनी के शेयरधारक द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग–अलग होगी। तदनुसार, लागू टीडीएस दरों के अनुसार टीडीएस काटने के बाद लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज / घोषणाएं कम्पनी को tds.rswm23@Injbhilwara.com पर / कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लागांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो। इस संबंध में, 21 जुलाई, 2023 को सभी शेयरधारकों को "वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु लाभांश में स्रोत पर कर की कटौती पर सामान्य संचार" भेजा गया था एवं इस संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट के लिंक https://www.rswm.in/Intimation-Communication-of-TDS-on-Dividend पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <u>http://www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022–4886 7000 एवं 022–2499 7000 पर

कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर अनुरोध भेजें। उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ऑ) के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड हास्ता / – सुरेन्दर गुप्ता वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव

स्थानः नोएडा (उ.प्र.) दिनांकः 16 अगस्त, 2023